



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2010/कार्तिक 18, 1932

No. 620]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2010/KARTIKA 18, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2010

**सा.का.नि. 898(अ).**—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नागालैंड सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियमों को बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) बारहवां संशोधन विनियमावली, 2010 होगा।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "नागालैंड" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

नागालैंड

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद	50	तैनाती हेतु न्यूनतम सेवावधि (वर्ष में)
सरकार के मुख्य सचिव	1	--
अपर मुख्य सचिव	2	2

	प्रधान मुख्य सचिव	4	2
	मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	1	2
	प्रधान सचिव और वित्तीय आयुक्त	1	2
	आयुक्त और सचिव	9	2
	आयुक्त	1	2
	निदेशक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	1	2
	राज्यपाल के सचिव	1	2
	आयुक्त, वाणिज्यिक कराधान	1	2
	स्थानिक आयुक्त	1	2
	सरकार के सचिव	9	2
	उपायुक्त	11	2
	अपर उपायुक्त	5	2
	निदेशक	2	2
1.	कुल वरिष्ठ इयूटी पद	50	
2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	20	
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	12	
4.	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	01	
5.	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	08	
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	27	
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	64	
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	91	

[फा. सं. 11031/04/2010-अ. भा. से.-II-(क)]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, नागालैंड भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 70 थी।

टिप्पणी (2): मुख्य विनियम दिनांक 22.10.1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, ये नागालैंड संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख	क्र.सं.	सा.का.न.सं.	तारीख
1	329अ	11.05.1976	7	319अ	31.03.1995
2	524अ	08.09.1980	8	276	05.07.1997
3	957	04.12.1982	9	739अ	31.12.1997
4	399	21.04.1984	10	222	09.07.2005
5	296	16.04.1988	11	77अ	08.02.2008
6	1108	07.03.1992	12	188अ	24.03.2009

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2010

**G.S.R. 898(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Nagaland hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Twelfth Amendment Regulations, 2010.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading “**NAGALAND**” for the entries occurring there under, the following shall be substituted namely:-

**NAGALAND**

Senior Duty Posts under the State Government		50	Minimum tenure for posting (in years)
	Chief Secretary to the Government	1	-
	Additional Chief Secretary	2	2
	Principal Chief Secretary	4	2
	Principal Secretary to Chief Minister	1	2
	Principal Secretary and Finance Commissioner	1	2
	Commissioner and Secretary	9	2
	Commissioner	1	2
	Director Administrative Training Institute	1	2
	Secretary to Governor	1	2
	Commissioner, Commercial Taxes	1	2
	Resident Commissioner	1	2
	Secretary to Government	9	2
	Deputy Commissioner	11	2
	Additional Deputy Commissioner	5	2
	Directors	2	2
1.	<b>Total Senior Duty Posts</b>	<b>50</b>	
2.	<b>Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above</b>	<b>20</b>	
3.	<b>State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above</b>	<b>12</b>	
4.	<b>Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above</b>	<b>01</b>	
5.	<b>Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of item 1 above</b>	<b>08</b>	

6.	Posts to be filled by promotion under Rule 9 of The Indian Administrative Service(Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of item 1,2,3 & 4	27
7.	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	64
	<b>TOTAL AUTHORIZED STRENGTH</b>	<b>91</b>

[F.No. 11031/04/2010-AIS-II-A]  
HARISH C. RAI, Desk Officer

**Note 1:** Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Nagaland IAS Cadre was 70.

**Note 2:** The principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350, dated 22.10.1955. Subsequently, they were amended in respect of the Nagaland Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. n

Sl. No.	GSR No.	Date	Sl.No.	GSR No.	Date
1.	329E	11.05.1976	7.	319E	31.03.1995
2.	524E	08.09.1980	8.	276	05.07.1997
3.	957	04.12.1982	9.	739E	31.12.1997
4.	399	21.04.1984	10.	222	09.07.2005
5.	296	16.04.1988	11.	77E	08.02.2008
6.	108	07.03.1992	12.	188E	24.03.2009

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 899(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, नागालैंड सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है, अर्थात् :-

- (i) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौदहवां संशोधन नियमावली, 2010 होगा ।
  - (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-

“अनुसूची II-क में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में समय वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों” की तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली “नागालैंड” प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

#### नागालैंड

सरकार के मुख्य सचिव	80,000/- रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव	एचएजी वेतनमान: 67000 रु . (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/-रु.
प्रधान मुख्य सचिव	एचएजी वेतनमान: 67000 रु . (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/-रु.

मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान: 67000 रु . (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/-रु.
प्रधान सचिव और वित्तीय आयुक्त	एचएजी वेतनमान: 67000 रु . (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/-रु.
आयुक्त और सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
निदेशक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
राज्यपाल के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, वाणिज्यिक कराधान	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
स्थानिक आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0

(ख) " अनुसूची II- भाग ख" में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में 'नागालैंड' शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

सरकार के सचिव
उपायुक्त
अपर उपायुक्त
निदेशक

[फा. सं. 11031/04/2010-अ. भा. से.-II-(ख)]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी : मुख्य नियम 20.03.2008 की जी.एस.आर. 213 (अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में जी.एस.आर.सं0665(अ) दिनांक 19.09.2008, 123(अ) दिनांक 15.04.2009, जी.एस.आर.सं0542(अ) दिनांक 21.07.2009, जी.एस.आर.सं0572(अ) दिनांक 13.08.2009, जी.एस.आर.सं0820 दिनांक 12.11.2009, जी.एस.आर.सं072(अ) दिनांक 10.02.2010, जी.एस.आर.सं0 102(अ) दिनांक 25.2.2010, जी.एस.आर.सं0 191(अ) दिनांक 12.03.2010, जी.एस.आर.सं0 298(अ) दिनांक 08.04.2010, जी.एस.आर.सं0397(अ) दिनांक 11.05.2010, जी.एस.आर.सं0404(अ) दिनांक 13.05.2010, जी.एस.आर.सं0413(अ) दिनांक 17.05.2010, जी.एस.आर.सं0432(अ) दिनांक 20.05.2010, जी.एस.आर.सं0434(अ) दिनांक 20.05.2010, जी.एस.आर.सं0451(अ) दिनांक 26.05.2010, जी.एस.आर.सं0689(अ) दिनांक 19.08.2010 और जी.एस.आर.सं0836(अ) दिनांक 13.10.2010 द्वारा संशोधित किए गए ।

436891/10-2

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2010

**G.S.R. 899(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Nagaland** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely: -

1. (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Fourteenth Amendment Rules, 2010.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007:-

In "Scheduled II-A posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the table, for the entry '**NAGALAND**' occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:

## "NAGALAND"

Chief Secretary to the Government	Rs.80000/- (fixed)
Additional Chief Secretary	HAG Scale – 67000 (annual increment @ 3%)– 79000/-
Principal Chief Secretary	HAG Scale – 67000 (annual increment @ 3%)– 79000/-
Principal Secretary to Chief Minister	HAG Scale – 67000 (annual increment @ 3%)– 79000/-
Principal Secretary and Finance Commissioner	HAG Scale – 67000 (annual increment @ 3%)– 79000/-
Commissioner and Secretary	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner	PB-4 + GP Rs.10000/-
Director Administrative Training Institute	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary to Governor	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner, Commercial Taxes	PB-4 + GP Rs.10000/-
Resident Commissioner	PB-4 + GP Rs.10000/-

(b) In "Schedule II-Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay, for the entries occurring under 'Nagaland', the following shall be substituted, namely:-

[F.No. 11031/04/2010-AIS-II-B]  
HARISH C. RAI, Desk Officer

**Note:** The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, vide GSR No.213(E) dated the 20.03.2008 and subsequently were amended vide GSR No.665(E) dated 19.09.2008, 123 (E) dated 15.04.2009, GSR No.542(E) dated 21.07.2009, GSR No.572(E) dated 13.08.2009, GSR No. 820 dated 12.11.2009, GSR No. 72 (E) dated 10.02.2010, GSR No.102 (E) dated 25.2.2010, GSR No. 191 (E) dated 12.03.2010, GSR No. 298 (E) dated 08.04.2010, GSR No. 397 (E) dated 11.05.2010, GSR No. 404 (E) dated 13.05.2010, GSR No. 413 (E) dated 17.05.2010, GSR No. 432 (E) dated 20.05.2010, GSR No. 434 (E) dated 20.05.2010, GSR No. 451 (E) dated 26.05.2010, GSR No. 689 (E) dated 19.08.2010 and GSR No. 836 (E) dated 13.10.2010